
First Aid for Heart Attack

The program was organized in collaboration with National Service Scheme and Health Centre of the College on 28th July 2022 at College Auditorium. On the occasion of 75th anniversary of Independence of India the program was organized. On this occasion the president of the program was Prof Dr S G Talnikar and chief guests for the program were Dr Sameer Munshi (Bachelor in Naturopathy and Yoga Science) and Dr Chandani Potkule (Bachelor in Naturopathy and Yoga Science). In the program kinds of heart attacks, the reasons behind those and measures of first aid of heart attack were explained by Dr Sameer Munshi. Dr Chandani Potkule explained different herbs that can help to clean the body toxins that cause heart attack. The program was concluded by the presendential speech of Dr S G Talnikar during which he explained that Ayurveda is the true asset of India. Mr T U Kendre and Dr V B Kalyankar of NSS and coordinator of Health Committee Mr N S Gaikwad took efforts for the success of the program.





Welcoming guests



Demonstration of first aid for heart attack

दैनिक मराठवाडा केसरी

आपलं हिंगोली

Email: daily.marathwadakesri@gmail.com

शुक्रवार 29.07.2022

रिक्सेना सक्रिय सदस्य नोंदणीस शेवाळा येथे प्रतिसाद



असवाज बाळपूर/प्रतिनिमी: क्षेत्राका येथे विवस्तेत प्राथमित स्वीच सदस्य नंदायी असे भारतान केताक सावारील नारिकानी सेठाव असमारात स्थान नंदारात अते. संयूर्ण स्वारानुत ही प्रतिवाध परणायारी असम वर्षन मोद्र पारीण सकरत योध्या नेतृत्वावाली केताका येथे सेठाव प्रस्ताव स्वारा नेतृत्वावाली केताका येथे सेठाव प्रस्ताव संवया नेतृत्वावाली केताका येथे सेठाव प्रस्ताव संवया नंदायी पालू सेताव असे स्वारात प्रतिवाद स्वारात स्

तोष्णीवाल महाविद्यालयात हृदयरोग प्रथमोपचार प्रशिक्षण शिबिर संपन्न

सेन्साव / तालुका प्रतिनिधी :
तोध्यक्षित करता, सावित्य व विज्ञाननाविद्यालय सेन्साव केवे स्वातंत्रवाय
अन्द्रा नवंदेस्क कंतरीत वर्षेय सेवायं सावित्य सेन्साव केवे स्वतंत्रवाय
अन्द्रा नवंदेस्क कंतरीत वर्षेय सेव्य संबंध्य संक्ष्म विज्ञाने इत्यक्षेत्र संबंध्य संक्ष्म विज्ञाने इत्यक्षेत्र प्रवाद संक्ष्म विज्ञाने इत्यक्षेत्र प्रवादी कार्यक्रमाये कार्यक्ष्म नव्यक्ष्म कर्ति कार्यक्रमाये कार्यक्ष्म कार्यक्ष्म क्ष्माव्यक्ष्म विज्ञाने प्रवादी वर्ष्यक्षम्य कार्यक्षम्य कार्यक्ष्म क्ष्माव्यक्ष्म क्ष्माव्यक्ष्म व्यवक्ष्म वर्ष्यक्ष्म क्ष्माव्यक्ष्म वर्ष्यक्षम्य कार्यक्ष्म वर्ष्यक्षम्य कार्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य कार्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य अव्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य कार्यक्षम्य वर्ष्यक्षम्य वर्षक्षम्य वर्ष्यक्षम्य वर्षक्षम्य वर्षक्षम्य वर्षक्षम्य वर्षक्षम्य

असतात? तो वशामुळे येतो?, इट्यविकाराचा अठल आल्यानंतर



प्रकारियार स्पन् कोशस्य वार्था सर्वार्शनात चाँरपी पोठमुळे याँनी स्टापपूर्ण आहेत तसेच अञाबेळी ह्रस्यविकारवार उपयोगी अस्त्रान्य लोट, अडोका, दास हळ्टी, डाडी प्रकारियार क्सा करवा एव संस्पति आयुर्वेदिक रामशीभी यात्राचे मुख्यसे वार्या उपयोगितियादी सर्विस्तर असे सर्विस्तर असे कार्यक्रमार्थ्य पुढील प्रेमितक, विजयसार, गुळेल, गुळकर,

ताव्यीकार यहाँ अस्पूर्क हेच पारत देवाचे बारे केवा आहं तासेच आयुर्वेद हा का कास टालायाय है विकारित या कराता रवाने अपने का काम केते. स्ट्रीय केवा केवान कार्यक्रम अधिकार हा देव यूर्क संस्कृतिक संस्कृति हा देव यूर्क संस्कृति या स्पर्धानक व धावधानीय्या यूनत इत्यविकार कसे देवें काराता आहे ? यावदान आपने कता बाता केते तर अध्याप हिल्लोक्स स्टेंटिंग संस्कृतका प्र. एन. एस. स्वकाराड बाती ब्यान केते. एन. एन. नयानाड याँनी ट्यन्त मेरो. बर्च्यान्यस्य यतन्त्रीतेसाठी ठॉ. एन. एक. अकाल, ठॉ. ऐ. वी. करवाबवर, ठॉ.एन. एस. मरकाड,ब्रा. के. एम. प्याप्त रामेच तिकान त तिकानेतर कर्मचाची याँनी मेहन्ता फेताली. सदर तिक्रिकार महानिद्यालस्यातील जीका य तिक्राकेतर नर्मचाची मोठास संख्येने सहमानी जाले होते.

News in Dainik Marathwada Kesari